



AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

Dhanuka Agritech Limited



Online

Date: November 20, 2018

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400 051

The Department of Corporate Services-
Listing
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Ref: Symbol- DHANUKA

Scrip Code: 507717

Sub.: Newspaper Advertisement confirming completion of dispatch of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form- Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI- (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copies of the newspaper advertisements confirming the completion of dispatch of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form, published in the English and Hindi newspapers, namely Financial Express and Jansatta.

This is for your information and record please.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Dhanuka Agritech Limited




Jyoti Verma
Company Secretary
FCS: 7210

Encl: a/a



SBI
Networking & Communication Dept., State Bank Global IT Centre,
Main Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614.

CORRIGENDUM

Please refer the RFP No. SBI/GITC/NW & Comm./2018/2019/527 dated 31.10.2018. Pre-bid responses and **Corrigendum** dated 17.11.2018 is available under 'Procurement News' at Bank's website, <https://bank.sbi>

Sd/-
Deputy General Manager
(Networking & Communication Dept.)

Place: Navi Mumbai
Date: 19/11/2018

Dhanuka Agritech Limited
Regd. Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh,
New Delhi-110005 (India), Corporate Office: 14th Floor, DLF Building No. 5A,
Tower 'A', DLF Phase-III, DLF Cyber City, Gurugram-122 002 (Haryana),
Ph.: +91-11-2363 4551-52, 0124-3838500, Fax: 011-43850614
E-mail: Investors@dhanuka.com, Website: www.dhanuka.com
CIN:L24219DL1985PLC020126

NOTICE FOR DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid envelope to the Members of the Company on November 19, 2018 in order to seek consent of the members by way of Special Resolution(s) in respect of the Resolution(s) mentioned in the aforesaid Postal Ballot Notice which inter alia contains resolution for approval of Buy Back of Equity Shares of the Company. The said documents were sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. November 14, 2018 will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the remote e-voting platform to the members. Voting through Postal Ballot and e-voting will commence on **Tuesday, November 20, 2018 at 9.00 A.M. (IST) and will close on Wednesday, December 19, 2018 at 5.00 P.M. (IST)**. Postal Ballot Forms received after 5.00 P.M. (IST) on December 19, 2018 will be considered invalid. E-voting will be blocked by CDSL at 5.00 P.M. on December 19, 2018.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms can write to the Company Secretary at the Corporate Office of the Company at 14th Floor, DLF Building No. 5, Tower 'A', DLF Phase-III, DLF Cyber City, Gurugram, Haryana-122002 or email at ijyotiverma@dhanuka.com / investors@dhanuka.com.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact official designated to address the grievances in this regard: Mr. Rakesh Dalvi, Manager at Phone No. 1800-225-533.

M/s. Pragnya Parmita Pradhan & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting as well as Postal ballot voting in fair and transparent manner. The results of the voting will be declared on **Thursday, 20th December, 2018** and shall be posted on the Notice Board at Company's registered office as well as Corporate office and shall also be available at the website of Company www.dhanuka.com and intimated to the Stock Exchange(s) on which the shares of the Company are listed.

The Postal Ballot Notice and Postal ballot form are available on the Company's website, CDSL's e-voting website and on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

In case of any further query on voting through postal ballot, members may contact the undersigned at the email - ijyotiverma@dhanuka.com / investors@dhanuka.com.

For and on Behalf of the Board

Dhanuka Agritech Limited

Sd/-

Jyoti Verma

Company Secretary

FCS-7210

Date: November 19, 2018

Place: Gurugram

NOTICE

Notice is hereby given that the Certificates for 320 Equity shares under Folio No: A005002, No of Shares: 3090490 Nos: 02762,68799-3090331 to 3090490 290468980 to 290469139 M/s HEXAWARE Technologies Ltd. standing in the names of A. Abdul Hameed V.K. Abdul Rahiman have been lost or mislaid and the undersigned have applied to the Company to issue duplicate Certificates for the aforesaid shares. Any person who has claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered office within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificates.

V.K. Abdul Rahiman, A. Abdul Hameed
Date: 19/11/2018 Place: Aluva

NOTICE

Notice is hereby given that the Certificates for the undermentioned Equity Shares of PIRAMAL ENTERPRISES LTD. have been lost/mislaid and the holders of the said Equity Shares have applied to the Company to issue duplicate Certificates. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge the same with the company's Regd. Office Piramal Ananta kuria West Mumbai 400070 within 21 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate Certificates to the aforesaid applicants

1) Name of the holders: A. Abdul Hameed, V.K. Abdul Rahiman
Folio No: A005002, No of Shares: 1075
Certificates & Distinctive Nos: 41354 190281567-190281666, Folio No: 00011663, No of Shares: 26
Certificates & Distinctive Nos: 15002, 33017, 72084, 94685, 86

AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

(TS 16949 Company)
CIN: L51909KA1981PLC004198
Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road,
Mysuru - 570 018, Karnataka
Email: sec@autoaxle.com Website: www.autoaxle.com.

NOTICE

NOTICE is hereby given that in compliance with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules ("Rules"), 2016 and section 124 (6) of Companies Act, 2013 the Company is mandated to transfer all such shares in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Suspense Account in respect of which dividends has not been paid or claimed for seven consecutive years or more.

Notice is further given that in accordance with the provisions of the Rule, individual notice has been sent to respective shareholders at their latest available address in the Companies/ Registrar and Share Transfer (RTA) records, inter alia providing the details of shares being transferred to IEPF Suspense Account and the list of such shareholders is also displayed on the website of the Company at www.autoaxle.com.

The concerned shareholders are requested to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before February 20, 2019, for the F.Y 2010-11 and onwards, failing to which such shares shall be transferred to IEPF Suspense Account. The shareholders may note that upon such transfer, both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Suspense Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority, after following the procedure prescribed under the "Rules".

For further information/request to claim the unpaid/unclaimed dividend(s) the concerned shareholders may contact the RTA of the Company at:

Mr. Harish K, Manager
Integrated Registry Management Services Private Limited
No.30, Ramana Residence, 4th cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru- 560 003
Ph: +91 80 23460815-818 Fax: +91 80 23460819
Email Id: irg@integratedindia.in

Place : Mysuru
Date : 20th November 2018



Joint Venture between

For Automotive Axles Limited

Debas Panda

Company Secretary



TATA POWER
The Tata Power Company Limited
(Corporate Contracts Department)
Technopolis Knowledge Park CENTEC, Andheri (E), Mumbai 400 093, Maharashtra, India
(Board Line: 022-67173188) CIN:L28920MH1919PLC009567

NOTICE INVITING TENDER

The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning for upgradation of Fire protection systems on EPC basis at following Receiving stations in Mumbai as separate packages (Two Part Bidding)

Sr.No	Receiving Station Site	Package ref. no
1	Malad	CC18YW007
2	Parel	CC18YW008
3	Powai	CC18YW009
4	Sahar	CC18YW010
5	Saki	CC18YW011
6	Salsette	CC18YW012

For detail NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>.
Last date of receipt of request for issue of bid document is 27/11/2018.

Invitation for Expression of Interest to Submit Resolution Plan FOR AML STEEL AND POWER LIMITED (CIN NO.:U27109TN2004PLC052436)

AML Steel and Power Limited ("Corporate Debtor"), a company incorporated under the Companies Act, 1956. Application are invited for putting forward a Resolution Plan in the Corporate Insolvency Process of AML Steel and Power Limited for takeover, investment, management etc. of the company which is a manufacturer of Sponge iron, M.S. Billets and power through WHRB. Company was manufacturing steel ingots out of scrap iron. The company has a plant in Jharkhand having land area of 80 Acres +. It has a Power Plant for captive consumption and Steel Melting Shop for manufacturing of Billets which is closed/ non-operational since 2011. The Corporate Debtor is currently under the Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") under the provisions of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 (IBC), pursuant to an order dated 12th March, 2018 passed by Hon'ble NCLT, Chennai. Mr. Santanu T Ray, who is appointed as Resolution Professional (RP), invites Expression of Interest (EOI) in the prescribed format from the prospective Resolution Applicants for the purpose of submission of Resolution Plan in respect of takeover and revival of the Corporate Debtor. The last date of submission of Resolution Plan is **30th November, 2018, up to 05:00 PM**. The prospective Resolution Applicant shall submit EOI along with the Annexures and proof of payment of Process Participation Fees in hard copy in a sealed envelope either in person or via speed post, courier or through email at the address/ email id mentioned below. The Format of EOI, Form G, Brief profile of assets and business of Corporate Debtor, Bid Evaluation Matrix, Bidding Process & terms and conditions, eligibility criteria, requirement of Process Participation Fees & Earnest Money Deposit and Draft agreement between RP & Resolution Applicant are available on the website of Resolution Professional www.insolvencyandbankruptcy.in. Any terms & conditions of the EOI may be amended or changed at any stage by RP which will be posted on these websites.

Note: RP reserves the right to cancel or modify the process and / or disqualify any interested party without assigning any reason and without any liability. This is not an offer document. Prospective Resolution Applicant should regularly visit websites referred to above to keep themselves updated regarding clarifications, amendments, or extensions of time, if any.

Santanu T Ray, Partner
Regn. No. - IBI/IPA-002/IP-N00360/2017-18/11055
1343, Sector, Level 13, Platinum, Techno Park, Plot No.17-18,
Regd. 30A, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400705
Correspondence Address: E-10A, Kailash Colony, Greater Kailash-1,
New Delhi-110048. Email ID: santanutr@saainsolvency.com,
amlsteel@saainsolvency.com. Contact No.: 011-46664600

MIRAE ASSET Mutual Fund

NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/29/2018

THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF MIRAE ASSET MUTUAL FUND ("THE FUND")

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., ("Trustee") to the Fund ("MAMF") have designated Mr. Gaurav Khandelwal, Research Analyst - Equity as a Key Personnel with effect from Wednesday, November 14, 2018.

Consequently, the following details of Mr. Gaurav Khandelwal, shall be added under the paragraph on "INFORMATION ON KEY PERSONNEL" in the SAI of the Fund:-

Name	Designation / Years of experience	Qualification / Age	Experience & Background (during last 10 years)
Mr. Gaurav Khandelwal	Research Analyst - Equity	Chartered Accountant and Chartered Financial Analyst / 30 years	Mr. Khandelwal has professional experience of more than 7 years and his primary responsibility includes assisting fund managers in equity research. Prior to this he was associated with Ambit Capital Private Limited, Emkay Global Private Limited, CRISIL Limited and ICICI Bank.

This addendum forms an integral part of the SAI. All other contents of the SAI remain unchanged.

For and on behalf of the Board of Directors of
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS (INDIA) PVT. LTD.
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Sd/-
DATE : November 19, 2018
AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Global Investments (India) Pvt. Ltd.)
Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeeasset.com www.miraeeassetmf.co.in
CIN OF AMCO - U65993MH2006FTC165663

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SPBP TEA (INDIA) LIMITED
Crescent Tower, 4th Floor, Room No. 4E, 229 A.J.C. Bose Road, Kolkata- 700020

Recommendations of the Committee of Independent Directors (CID) on the Open Offer to the Equity Shareholders of SPBP Tea (India) Limited (hereinafter referred to as "Target Company") by Jalan Industries Private Limited, Jalan Holdings Private Limited, Jalans Investments Private Limited, Narsingdass Surajmull Properties Pvt Ltd, Mr. Mahadev Jalan, Mrs. Sarala Jalan, Mrs. Kumkum Jalan, Mrs. Avantika Jalan and Mr. Mrityunjay Jalan (Collectively referred as "The Acquirers"), under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI SAST Regulations").

Sr. No.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	Response
1.	Name of the Target Company	November 19, 2018 SPBP Tea (India) Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirers for acquisition of 2,50,605 Equity Shares of the face value of ₹10/- each, representing in aggregate 26.74% of the equity share capital of the Target Company at a price of ₹90/- (Rupees Ninety only) per fully paid up equity share of ₹10/- each payable in cash pursuant to Regulations 3(1) and 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.
4.	Name of the Acquirers and PAC with the Acquirers	Jalan Industries Private Limited, Jalan Holdings Private Limited, Jalans Investments Private Limited, Narsingdass Surajmull Properties Pvt Ltd, Mr. Mahadev Jalan, Mrs. Sarala Jalan, Ms. Kumkum Jalan, Mrs. Avantika Jalan and Mr. Mrityunjay Jalan. There is no person acting in concert with the Acquirers.
5.	Name of the Manager to the Offer	Narmolia Financial Advisors Limited (Formerly Microsec Capital Limited) 201, 2nd Floor, Marble Arch, 236B A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020 Tel.: +91-33-4050 1500 Fax: +91-33-4050 1549 E-mail: mgonenka@narmolia.com Website: www.narmolia.com Contact Person: Mr. Manav Goenka
6.	Members of the Committee of Independent Directors ("CID")	(1) Mr. Dwija Das Chatterjee (Chairperson) (2) Mr. Pranay Jhunjhunwalla (Member)
7.	IDC Members relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	IDC members are Independent Directors of the Target Company and none of the IDC Members hold any equity shares in the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC has done trading in the Equity Shares / other securities of the Target Company since their appointment.
9.	IDC Members relationship with the Acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC members have any relationship with the Acquirers.
10.	Trading in the Equity shares / other securities of the Acquirers by IDC Members	Not Applicable
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	SAST Members believe that the Open Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI SAST Regulations.
12.	Summary of reasons for recommendation	IDC believes that the Open Offer given by Acquirers is fair and reasonable, in light of the following: I. Based on the review of the public announcement, detailed public statement, Draft letter of offer and Letter of Offer issued by the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirers, II. The Equity Shares of the Target Company are not frequently traded on Calcutta Stock Exchange Limited. The Offer price is not lower than the minimum price determined considering the parameters as specified under Regulation 6 of the SEBI SAST Regulations. III. It will provide an exit opportunity to the existing shareholders. Keeping in view, the above facts, IDC is of the view that the price of this Open Offer is fair and reasonable. The IDC, however, recommends that the Public Shareholders independently evaluate the Open Offer and take informed decisions with respect to their participation in the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Nil
14.	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations.

For SPBP Tea (India) Limited
Sd/-
Mr. Dwija Das Chatterjee- Chairperson
Committee of Independent Directors

Place : Kolkata
Date : November 20, 2018

8. Based on the aforesaid financial arrangements and on the confirmation received from the Escrow Agent and KPMG LLP, Public Accountants and Chartered Accountants, the Managers are satisfied about the ability of the Acquirer along with PACs to implement the Open Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The Managers confirm that firm arrangement for the funds and money for payment through verified means are in place to fulfill the Open Offer obligations.

9. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of the Open Offer, the corresponding increase to the escrow amounts as mentioned above shall be made by the Acquirer and/or PACs in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations, prior to effecting such revision.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, there are no statutory or other approvals required to complete the Open Offer as on the date of this DPS, except as set out below. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of such acquisitions, the Open Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s) being obtained.

2. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that the approvals (in relation to the acquisition of Equity Shares constituting the Offer Shares) specified in this DPS as set out in Part VI (Statutory and Other Approvals) above or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the Acquirer and the PACs shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer and the PACs (through the Managers) shall, within 2 (Two) working days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. If the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including non-resident Indians ("NRIs"), overseas corporate bodies ("OCBs") and registered foreign portfolio investors ("FPIs")), require any approvals (including in respect of Equity Shares ("RBI")), the Foreign Investment Promotion Board or any other regulatory body in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Open Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Open Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer and the PACs reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Open Offer.

4. Public Shareholders classified as OCBs, if any, may tender the Equity Shares held by them in the Open Offer pursuant to receipt of approval from the RBI under the Foreign Investment Promotion Act, 1999 and the regulations made thereunder.

5. Subject to the receipt of the statutory and other approvals, if any, the Acquirer and the PACs shall complete all procedures relating to the Open Offer, including payment of consideration within 10 (ten) working days from the closure of the tendering period to those shareholders whose share certificates or other documents are found valid and in order and are approved for acquisition by the Acquirer and the PACs.

6. Where any statutory or other approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer and the PACs shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory or other approvals are required in order to complete this Open Offer.

7. In case of delay/non-receipt of any approval which may be required by the Acquirer and/or PACs at a later date, as per Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, SEBI may, if satisfied, that non receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any willful default, failure or neglect on the part of the Acquirer or the PACs to diligently pursue such approval(s), grant an extension of time for the purpose of completion of this Open Offer, subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest by the Acquirer and the PACs to the Public Shareholders at such rate, as may be prescribed by SEBI from time to time, in accordance with Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES

No.	Activity	Schedule (Date and Day)
1.	PA	Friday, July 13, 2018
2.	Publication of this DPS	Tuesday, November 20, 2018
3.	Filing of the draft letter of offer with SEBI	Thursday, November 29, 2018
4.	Last date for public announcement for competing offer(s)	Thursday, December 13, 2018

5.	Last date for receipt of SEBI observations on the draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Managers to the Open Offer)	Thursday, December 20, 2018
6.	Identified Date ¹	Monday, December 24, 2018
7.	Last date by which the letter of offer ("Letter of Offer"/ "LOF") is to be dispatched to the Public Shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	Tuesday, January 01, 2019
8.	Last date for upward revision of the Offer Price/the size of the Open Offer	Friday, January 04, 2019
9.	Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation to the Public Shareholders for this Open Offer	Friday, January 04, 2019
10.	Date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Monday, January 07, 2019
11.	Date of commencement of the tendering period ("Offer Opening Date")	Tuesday, January 08, 2019
12.	Date of closure of the tendering period ("Offer Closing Date")	Monday, January 21, 2018
13.	Last date of communicating the rejection/ equity shares and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders	Monday, February 04, 2019
14.	Last date for publication of post-Open Offer public announcement in the newspapers in which this DPS has been published	Monday, February 11, 2019

¹The above schedule is tentative and is subject to receipt of statutory/regulatory approvals or comments from regulatory authorities, and may have to be revised accordingly.

²Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer and the PACs or persons acting in concert with them) are eligible to participate in the Open Offer any time before the Offer Closing Date.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All the Public Shareholders, whether holding the shares in physical form or dematerialized form, registered or unregistered are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date and Offer Closing Date ("Tendering Period") for this Open Offer.

2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer.

3. The Open Offer will be implemented by the Acquirer and the PACs through stock exchange mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 issued by SEBI and as amended via SEBI circular CIR/CFD/2016/131 dated December 9, 2016.

4. BSE shall be the designated stock exchange ("Designated Stock Exchange") for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.

5. The Acquirer has appointed HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited ("Buying Broker") as their broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered in the Open Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited

52/60 M G Road, FORT, MUMBAI 400001

Contact Person: Nilesh Pravinchandra Mehta

Ph: +91 22 4112 6516

SEBI Registration No. - NSE Capital Market: INB230791734, BSE Equity: INB010791730

CIN: U67120MH1994PTC081575

6. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock brokers ("Selling Brokers") within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.

7. The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized as well as physical Equity Shares.

8. The process for tendering the Offer Shares by the Public Shareholders holding physical Equity Shares will be separately enumerated in the Letter of Offer.

9. The detailed procedure for tendering the Offer Shares in this Open Offer will be available in the Letter of Offer, which shall be made available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer, the PACs and their directors in their capacity as the directors, accept full responsibility for the information contained in the PA, and this DPS (other than such information regarding the Target Company as has been obtained from public sources) and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of this Open Offer.

2. The information pertaining to the Target Company contained in the PA or DPS or Letter of Offer or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company. The Acquirer and the PACs do not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS or the Letter of Offer pertaining to the Target Company.

3. In this DPS, all references to "Rupees" or "INR" or "Rs." are references to the Indian Rupee(s) ("INR"). Certain financial details contained in the DPS are denominated in Singapore Dollars ("SGD"), or Malaysian Ringgit ("MYR" or "RM"). The INR equivalent quoted in each case for SGD is calculated based on the reference rate of INR 50.5515 per SGD as on July 11, 2018. The INR equivalent quoted in each case for MYR/ RM is calculated based on the reference rate of INR 17.0349 per MYR/ RM as on July 11, 2018 (Source: Bloomberg).

4. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (<http://www.sebi.gov.in>)

Issued on behalf of the Acquirer and the PACs by the Managers

HSBC HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited 6th floor, 52/60, M.G Road, Fort, Mumbai 400 001, India Tel: +91 22 2268 1560; Fax: +91 22 6653 6207 E-mail: fortis.openoffer@hsbc.co.in Contact Person: Ms. Tanvi Jain SEBI Registration Number: INM000010353	HDFC Bank HDFC Bank Limited Unit No 401 & 402 4th floor, Tower B, Peninsula Business Park, Lower Parel, Mumbai - 400013 Tel: + 91 22 3395 8211; Fax: +91 22 3078 8584 E-mail: fortis.openoffer@hdfcbank.com Contact Person: Ashwani Jandhan SEBI Registration Number: INM000011252
citi Citigroup Global Markets India Private Limited 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098, Tel: +91-22-61759999 Fax: +91-22-61759998 E-mail: fortis.openoffer@citigroup.com Contact Person: Nayan Goyal SEBI Registration Number: INM000010718	LINK Intime Link Intime India Private

